



नकली शराब बनाते एक युवक पकड़ा, दो साथी फरार

Aligarh news

- हिंदी न्यूज़
- / उत्तर प्रदेश
- / अलीगढ़

Publish Date: Tue, 23 Jun 2020 07:50 PM (IST)



पुलिस को सूचना मिली कि गांव डेटा के निकट जंगल में कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो तीन व्यक्ति बाल्टी में रखे केमिकल से पोवा भर-भरकर रख रहे थे।

अलीगढ़, [जेएनएन]। पिसावा पुलिस ने रविवार शाम को नकली शराब बनाते एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दो फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि गांव डेटा के निकट जंगल में कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो तीन व्यक्ति बाल्टी में रखे केमिकल से पोवा भर-भरकर रख रहे थे। पुलिस ने एक युवक अजय कुमार उर्फ भोली निवासी सैदपुर को पकड़ लिया। उसके पास से 12 पोवा अपमिश्रित शराब, 12 खाली पोवा व ढक्कन के अलावा 600 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम केमिकल मिश्रण, खाली बोतल व थैला आदि बरामद किए गए। थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया पकड़े गए युवक ने फरार साथियों के नाम राहुल शर्मा व सोनू निवासी गण थाना चंडौस बताया है। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए युवक को सोमवार को जेल भेज दिया।

40 पौवा शराब सहित दो को भेजा जेल

अकराबाद थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में चंदन व रेशमपाल पुत्रगण सूरजपाल निवासी गांव बादरी को जेल भेजा है। दोनों के पास से 40 पोवा गुड ईवनिंग मार्का शराब के बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार रविवार रात दारोगा राजू राणा व अन्य सिपाही गोपी कनकपुर रोड पर गश्त पर थे। गांव कनकपुर के निकट रोड पर दोनों आरोपितों सफेद रंग के थैले लिए दिखाई दिए। शक होने पर तलाशी ली। दोनों थैलों से 20-20 पोवा गुड ईवनिंग मार्का शराब मिली।

गुटखा-पान मसाला की रुके बिक्री

देश में इस समय फैलती कोरोना महामारी के कारण गुटखा, पान मसाला व सुपारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद खैर में धड़ल्ले से इन सब चीजों की बिक्री हो रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। सामाजिक संस्था नव चेतना समिति के अध्यक्ष शोभित गोविल ने सोमवार को एसडीएम अंजुम बी को ज्ञापन सौंप कर इनकी बिक्री रुकवाने की मांग की। ज्ञापन देने वाले में रामवीर सिंह, तरुण आदि मौजूद रहे।

Posted By: Parul Rawat

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-one-youth-caught-making-illegal-liquor-two-companions-absconding-20427414.html>